



August 29, 2022

To,
BSE Limited
Pheeroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001

Dear Sir,

Sub.: Intimation under Regulation 30 of SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Ref.: Submission of Post Offer Public Announcement ('Post Offer PA') of Goldcrest Corporation Limited ('Company') in accordance with the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 ('Delisting Regulations').

With reference to the Delisting Offer of the Company which opened on Friday, August 19, 2022 and closed on Thursday, August 25, 2022 and the outcome of reverse book building process which was announced in terms of regulation 17(3) of Delisting Regulations on August 25, 2022, we are in receipt of the Post Offer PA for the Delisting Offer issued by the Acquirer and PACs, in accordance with Regulation 17(4) of the Delisting Regulations, published today i.e. August 29, 2022 in the following newspapers:

Newspaper	Language	Edition
Business Standard	English	All
Business Standard	Hindi	All
Mumbai Lakshadeep	Marathi	Mumbai

Kindly take the same on your records.

Thanking You,

For, Goldcrest Corporation Limited



Marisa Eldin Ferreira
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above

August 29, 2022

To,
The Board of Directors
Goldcrest Corporation Limited
3rd Floor, Devidas Mansion,
Mereweather Road, Colaba, Apollo Bunder,
Mumbai, Maharashtra, 400039, India

Dear Sir,

Sub.: Submission of Post Offer Public Announcement ('Post Offer PA') of Goldcrest Corporation Limited ('Company') in accordance with the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 ('Delisting Regulations').

With reference to the Delisting Offer of the Company which opened on Friday, August 19, 2022 and closed on Thursday, August 25, 2022 and the outcome of reverse book building process which was announced in terms of regulation 17(3) of Delisting Regulations on August 25, 2022, the Acquirer and PACs have issued a Post Offer PA for the Delisting Offer published today i.e. August 29, 2022, in accordance with Regulation 17(4) of the Delisting Regulations, in the following newspapers:

Newspaper	Language	Edition
Business Standard	English	All
Business Standard	Hindi	All
Mumbai Lakshadeep	Marathi	Mumbai

Please find enclosed a copy of the Post Offer PA for your reference and records. Request you to disseminate the said information on your website.

Capitalised terms used in this letter shall have the meaning provided in the Detailed Public Announcement dated August 05, 2022 published on August 08, 2022 and Letter of Offer dated August 06, 2022.

Thanking You,

For, Vivro Financial Services Private Limited



Vivek Vaishnav
Director

Encl.: As above

'Electric scooters to hit 5% of two-wheeler market in FY23'

Greaves Electric Mobility projects sales of two-wheeler EVs will balloon to 700,000 units in FY23

SURAJEET DAS GUPTA
New Delhi, 28 August

CHARGING UP Sales of electric scooters

Greaves Electric Mobility (GEM), which sells the Ampere brand of electric scooters, projects that the inflection point for the conversion of internal combustion engine (ICE) scooters to electric ones will be reached in FY 23, hitting 4-5 per cent of the total two-wheeler market. In FY 22 the penetration of electric two-wheelers was less than 2 per cent of the market.

Elaborating on its upbeat view of the industry, Nagesh A Basavanhali, executive vice-chairman of Greaves Cotton Ltd, of which Greaves Mobility is a subsidiary, says: "Our projection is that the industry will hit sales of 700,000 electric scooters in this financial year, compared to 250,000 in FY 22. This will be the real inflection point which is needed as penetration of electric scooters will hit 4-5 per cent."

He projects, moreover, that by 2027 as much as 30-35 per cent of ICE scooters, whose current sales are around 6-7 million per annum, will be converted to electric.

Basavanhali should know. With the company accounting for 14 per cent to 15 per cent share of the electric scooter sales in the country, it has been amongst the top four players in the market since it acquired electric scooter company Ampere in phases from 2019.

The confidence, says Basavanhali, comes from the fact that while GEM sold around 65,000 electric scooters in FY 22, in the first quarter of FY 23, it



has managed to sell close to half those numbers — around 29,577. As a result, the company is doubling its capacity so that it can make 25,000 electric scooters a month.

Though he concedes that the incidents of electric scooters catching fire were a dampener, Basavanhali points out that the chip shortage which had hit the industry in the previous two to three quarters, is now easing. However, based on overall registrations (of eight companies, not including incumbent

ICE players), the market has seen either stagnant numbers, or falling month on month since May this year. In July, for example, registrations fell by 5 per cent over June. And there was a sharp decline of 24 cent in May over April.

Unlike Ola Electric, which has decided on an initial average selling price (ASP) of ₹1.5 lakh (it has just announced an electric scooter in the ₹99,000 range), GEM has focused on the sweet spot of the ₹80,000-₹90,000 market. "We have concentrated

on the heart of the market, which covers around 150 million households. We see the price-volume equation existing in this range, and we can operate here profitably," says Basavanhali.

That said, the company has been pushing up its average selling price after it acquired Ampere, which was priced at just ₹40,000. It is also working on some products with a higher range, speed and features, which will be in the above ₹1 lakh category. GEM expects to announce these in a couple of quarters.

Again, unlike Ola Electric, which has gone with direct delivery to customers, GEM has already got 650 retail distributors and plans to add 20-30 more every month. Also, unlike its rival, the company has avoided getting into advanced chemistry cells for batteries under the government's production-linked incentive (PLI) scheme.

Basavanhali says that these are capital intensive, and the market is still evolving with alternatives to lithium ion like sodium ion. GEM, he adds, has relationships with many companies in the country and it plans to buy from them.

However, he admits that the company is still in talks with the government to allow it to participate in the PLI scheme for making electric two-wheelers, as Ola Electric, Bajaj Auto and TVS have been eligible for the scheme. Unfortunately, says Basavanhali, the net worth needed to be eligible for the PLI scheme was too high for GEM, as it is neither a start-up nor a very large company.

Reliance Cap bid deadline ends today

The deadline for submission of bids for debt-ridden Reliance Capital (RCL) ends on Monday amid concerns of investors over the company's most-valuable arm Reliance General Insurance Company.

IDBI Trusteeship Services acting in its capacity as a debenture trustee on behalf of Credit Suisse, had invoked the pledge of Reliance Capital's 100 per cent shareholding in Reliance General in November 2019 and transferred the shares to its account.

The Administrator wants to include Reliance General as part of RCL's insolvency process, but the IDBI Trustee has refused to release the shares of the general insurance firm for resolution process under Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), sources said, adding, this seems to have hit a roadblock.

EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE AVAILABLE

Lonavala
37 acres land
3.4 lakh sq. ft built-up

Residential School
International Board (IB / CIE)

- 37 acres prime location land at Lonavala with 3.4 lakh sq. ft. fully functional building at Lonavala (Dist. Pune, Maharashtra) is available for sale on as-is basis
- Located in R-Zone (residential zone) with approval for educational activities.
- Educational Infrastructure also suited for:
 - College / Institute
 - Corporate Research or Training

WhatsApp: +91 98103 30659
Email: info@eduvisors.org

APPOINTMENTS

MECON LIMITED
(A PSU under Ministry of Steel, Govt. of India)
H.O: Doranda, Ranchi - 834 002
CIN No.: U71440JH1973GOI00119

EMPLOYMENT NOTIFICATION
MECON Limited requires

Experienced Company Secretary Professional in the Regular Scale of Pay (Advt. No. 11.73.4.3/2022/Reg/02 dated 29/08/2022).

For further details please visit the link "Careers" of our website: www.meconlimited.co.in.

POST OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF PUBLIC SHAREHOLDERS OF GOLDCREST CORPORATION LIMITED

Corporate Identification Number: L74999MH1983PLC029408,
Registered Office: 3rd Floor, Devidas Mansion, Merewether Road, Colaba, Apollo Bunder, Mumbai, Maharashtra, 400039, India. Contact details Tel. No.: +91-22-22837489 / 22837490, Email id: office@goldcrestgroup.com; Website: www.goldcrestgroup.com

Company Secretary and Compliance Officer: Marisa Eldin Ferreira

This Post Offer Public Announcement ("Post Offer Public Announcement" or "Post Offer PA") is being issued by Vivro Financial Services Private Limited ("Manager" or "Manager to the Delisting Offer") for and on behalf of one of the promoters of Goldcrest Corporation Limited viz., Nita Tushar Tanna ("Acquirer"), along with Anupa Tanna Shah ("PAC 1"), Namrata Tushar Tanna ("PAC 2"), Hansa Tulsidas Tanna ("PAC 3") and Goldcrest Global Trading Private Limited (formerly known as Goldcrest Securities & Commodities Private Limited) ("PAC 4"), person acting in concert with the Acquirer (collectively "PACs"), to the public shareholders, as defined under Regulation 2(1)(t) of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares), Regulations, 2021, as amended ("Public Shareholders") of Goldcrest Corporation Limited, Corporate Identification Number: L74999MH1983PLC029408 ("Company") in regard to the proposed acquisition of fully paid-up equity shares having face value of ₹10/- (Indian Rupees Ten only) each ("Equity Shares") held by the Public Shareholders, and consequent voluntary delisting of the Equity Shares from the BSE Limited ("BSE"), the only stock exchange where the Equity Shares of the Company are presently listed in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021, as amended ("Delisting Regulations") and in accordance with the terms and conditions set out in (a) Detailed Public Announcement dated August 05, 2022 ("DPA"), which was published on August 08, 2022; and (b) the Letter of Offer dated August 06, 2022 ("LOF"), ("Delisting Offer" or "Offer").

This Post Offer PA is in continuation of and should be read in conjunction with the DPA and LOF. Capitalized terms used in this Post Offer PA shall have the same meaning as ascribed to it in the DPA and LOF.

The Acquirer and PACs through the Manager to the Delisting Offer issued DPA and LOF to acquire up to 15,44,223 (Fifteen Lakhs Forty-Four Thousand Two Hundred Twenty Three) Equity Shares ("Offer Shares") representing 27.14% of the total issued and paid-up equity share capital of the Company from the Public Shareholders pursuant to Part B of the Chapter III read with Chapter IV of the Delisting Regulations on such terms and condition as set out in DPA and LOF. The Public Shareholders holding Equity Shares of the Company were invited to tender their Equity Shares ("Bids") pursuant to the reverse book-building process ("RBBP") as prescribed in Delisting Regulations through Stock Exchange Mechanism during the bid period starting from Friday, August 19, 2022 to Thursday, August 25, 2022 ("Bid Period").

- DISCOVERED PRICE AND EXIT PRICE**
 - In terms of Regulation 20(1) read with Schedule II of the Delisting Regulations, the Discovered Price is ₹ 200/- (Indian Rupees Two Hundred Only) per Equity Share. The Acquirer and PACs have decided to offer ₹ 200/- (Indian Rupees Two Hundred Only) per Equity Share as the final exit price ("Exit Price") for accepting Equity Shares successfully tendered in the Delisting Offer at or below the Exit Price.
- SUCCESS OF THE DELISTING OFFER**
 - In accordance with Regulation 21 (a) of the Delisting Regulation and as stated in the DPA and LOF, the Delisting Offer would be deemed to be successful only if a minimum number of Offer Shares were tendered and acquired in the Delisting Offer at or below the Exit Price so as to cause the cumulative number of Equity Shares held by the Acquirer along with the PACs post acquisition through the Acquisition Window Facility constituting 90% of the paid-up equity shares capital of the Company excluding such Equity Shares in terms of Regulation 21 (a) of the Delisting Regulations.
 - The Acquirer and/or PACs shall acquire 10,02,002 (Ten Lakhs Two Thousand and Two) Equity Shares validly tendered at or below the Exit Price in the RBBP and post completion of acquisition, the shareholding of the Acquirer along with PACs shall be 90.47 % of the total issued and paid-up equity share capital of the Company and which has exceeded the minimum number of Equity Shares required for the Delisting Offer to be successful in terms of Delisting Regulations. The shareholding of the Acquirer along with PACs determined in accordance with the Regulation 21(a) of the Delisting Regulations is 91.77%.
 - To the best of our knowledge, except for 80,749 equity shares constituting 1.42% of the issued and paid-up equity share capital of the Company transferred to Investors Education and Protection Fund ("IEPF"), there are no inactive shareholders of the Company.
 - The Letter of Offer and Bid Form was despatched to all the Public Shareholders as on specified date i.e. Monday, August 8, 2022 in accordance with Regulation 16 of the Delisting Regulations.
 - The Delisting Offer is thus deemed to be successful.
 - All the Public Shareholders of the Company who have validly tendered their Equity Shares at or below the Exit Price will be paid the consideration at the Exit Price of ₹ 200/- (Indian Rupees Two Hundred Only) per Equity Share. The last date for payment of consideration to all the Public Shareholders (in respect of whom no regulatory approvals are required) and whose Bids have been accepted will be on or before Monday, August 29, 2022. Clearing Corporation will make direct fund pay-out to Public Shareholders whose Equity Shares have been accepted under the Delisting Offer. If bank account details of any Public Shareholders are not available or if the funds transfer instruction is rejected by the Reserve Bank of India / relevant bank(s), due to any reason, then the amount payable to the concerned Public Shareholder will be transferred to the Seller Members for onward transfer to such Public Shareholders.
 - Total 10,06,289 (Ten Lakhs Six Thousand Two Hundred Eighty Nine) Equity Shares with 69 (Sixty Nine) bids were received between the price range of ₹ 192.66 (Indian Rupees One Hundred Ninety Two and Paise Sixty Six) per equity share to ₹ 230/- (Indian Rupees Two Hundred Thirty Only) per equity share (both inclusive) consisting of 10,03,189 (Ten Lakhs Three Thousand One Hundred Eighty Nine) equity shares with 50 (Fifty) bids in demat form and 3,100 (Three Thousand and One Hundred) equity shares with 19 bids in physical form. Total 2,187 (Two Thousand One Hundred and Eighty Seven) equity shares with 4 (Four) bids were received in demat form above Discovered Price and thus same shall not be accepted. Further, bids for 2,100 (Two Thousand One Hundred) Equity Shares received from 12 bidders holding Equity Shares in physical form are rejected by the RTA due to non-matching of signature and/or non-receipt of requisite documents by the RTA in terms of the instructions specified in DPA and/or LOF.
 - The Equity Shares of the Public Shareholders whose Bids have been rejected in the RBBP, their demat shares or the physical shares would be returned to them in accordance with Methods of Settlement contained in the Detailed Public Announcement and Letter of Offer read along with SEBI Circulars. Public Shareholders will have to ensure that they keep their depository participant account active and unblocked to receive credit in case of return of Equity Shares, due to rejection or non acceptance of Equity Shares under the Delisting Offer.
 - The Company will initiate the necessary steps to delist its Equity Shares from BSE. The date of delisting of Equity Shares shall be announced in the same newspaper in which the DPA and this Post Offer PA has been published.
- OUTSTANDING EQUITY SHARES AFTER DELISTING OFFER**
 - In accordance with Regulation 26 of the Delisting Regulations, all Public Shareholders who continue to hold Equity Shares after the Delisting Offer ("Residual Shareholders") will be able to offer their Equity Shares to the Acquirer/PACs at the Exit Price for a period of one year following the date of the delisting of Equity Shares from the Stock Exchange viz. BSE Limited ("Exit Window").
 - The Acquirer/PACs shall ensure that the rights of the Residual Shareholders are protected and shall be responsible for compliance with Regulation 27 of the Delisting Regulations and Stock Exchange shall monitor the compliance of the same.
 - If any Public Shareholders has any queries regarding the Delisting Offer, he/she should consult the Manager to the Delisting Offer or the Registrar to the Delisting Offer. All terms and conditions of the Delisting Offer as set forth in the DPA and LOF remain unchanged. The Post Offer PA is also expected to be available on the website of the Stock Exchange (www.bseindia.com).
 - The Acquirer/PACs accepts full responsibility for the information contained in this Post Offer PA and confirm that such information is true, fair and adequate in all material aspects.

Contact details of Registrar to Delisting Offer are as follows:

PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED
Address: 9, Shiv Shakti Industrial Estate, Ground Floor, Sitaram Mill Compound, J.R. Boricha Marg, Lower Parel (East), Mumbai-400 011, Maharashtra, India.
Telephone No.: 022-23016761/23018261 Email id: support@purvashare.com
Website: www.purvashare.com SEBI Registration No.: INR00001112
CIN: U67120MH1993PTC074079 Contact Person : Purva Shah

ISSUED BY MANAGER TO THE DELISTING OFFER

VIVRO
Address: 607/608 Marathon Icon, Opp. Peninsula Corporate Park Off. Ganpatrao Kadam Marg, Veer Santaji Lane, Lower Parel Mumbai 400 013, Maharashtra, India.
Telephone No.: +91 22 6666 8040/41/42 Email ID: investors@vivro.net
Website: www.vivro.net SEBI Registration No.: INM000010122
CIN: U67120GJ1996PTC029182 Contact Person: Jay Shah / Viral Shah

Sd/- Acquirer	Sd/- PAC 1	Sd/- PAC 2	Sd/- PAC 3
Nita Tushar Tanna	Anupa Tanna Shah	Namrata Tushar Tanna	Hansa Tulsidas Tanna
For and on behalf of the Goldcrest Global Trading Private Limited (PAC 4)			
Sd/- Nita Tushar Tanna (DIN: 00170591)	Sd/- Anupa Tanna Shah (DIN: 01587901)		
Date: August 26, 2022	Place: Mumbai		

Communicate India

A MEETING OF MINDS ON THE INDIA POTENTIAL



India@75 - Past, Present & Future

A fireside chat with

Nitin Gadkari

Minister for Road Transport & Highways, Government of India



followed by a discussion with



Yamini Aiyar
President & Chief Executive, CPR



Akhil Gupta
Vice Chairman, Bharti Enterprises



Andrew Holland
CEO, Avendus Capital
Alternate Strategies



Shekhar Shah
Vice Chairman, ISPP
Academic Advisory Council

Tuesday, 6th September | 5:00 pm

Viceroy at The Claridges, Dr APJ Abdul Kalam Road, New Delhi

Entry by invitation only.

For invites, write to mansi.singh@bsmail.in or call Anil Bist on 9818158471

Business Standard
Insight Out



नए हालात में ढलने के लिए तीसरी तिमाही तक करना होगा

टिकाऊ उपभोक्ता फर्मों को इंतजार

राम प्रसाद साह
मुंबई, 28 अगस्त

वित्त वर्ष 2023 की अप्रैल-जून तिमाही के बाद के हिस्से में धीमी मांग और मुनाफे पर दबाव के बाद ब्रोकरों को कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियों को अच्छे मौनसून और कच्चे माल की कीमतों में नरमी आने से मदद मिलने की संभावना दिख रही है।

वृद्धि और मुनाफे से जुड़ी चिंताओं के बीच एफएमसीजी क्षेत्र के कुछ सेगमेंटों में वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही के परिणाम के बाद आय अनुमानों में 16 फीसदी तक की कमी दर्ज की गई है।

एडलवाइस रिसर्च के अनुसार, मुद्रास्फोटिकारी राह पूरी तरह कंज्यूमर सेगमेंटों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनी हुई और इससे मूल्यांकन और वृद्धि, दोनों को मदद मिली है।

वृद्धि और मुनाफे के लिए बढ़ते जोखिम को देखते हुए पिछले साल पूरे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेगमेंट में मूल्यांकन में कमी देखी गई और क्षेत्र के मल्टीपल में 22 फीसदी की कमी आई।

ब्रोकरेज का मानना है कि हालांकि केबल और वायर निर्माताओं ने पिछले साल के दौरान 2023-24 के लिए आय अपग्रेड को बढ़ावा दिया, जबकि शेयर प्रतिफल के संदर्भ में भी ये कंपनियां मददगार साबित हुईं।

शेयर प्रदर्शन सुधार की रफ्तार और कंपनियों द्वारा कारोबार/मार्जिन पर निर्भर करेगा। सिस्टमेटिक्स रिसर्च के विश्लेषकों आशिष पोद्दार और प्रणय शाह का कहना है, 'कंपनियों



को त्योहारी सीजन से पहले, सितंबर से मांग में सुधार (ग्रामीण और शहरी दोनों में) आने की उम्मीद है, क्योंकि मौनसून अच्छा है और स्टॉकिंग को लेकर स्थिति मजबूत दिख रही है। बड़ी संगठित कंपनियों को मजबूत बाजार भागीदारी बनाए रखने में लगातार मदद मिलेगी, भले ही छोटी क्षेत्रीय कंपनियों की राह में परिचालन संबंधी समस्याएं आ सकती हैं।

जहां मांग में मासिक आधार पर सुधार आया है, वहीं सेंट्रम रिसर्च का मानना है कि मजबूत उठाव अक्टूबर-दिसंबर की तिमाही में ही संभव है।

ब्रोकरेज के चिराग मुखला और राहुल कुमार मिश्रा का कहना है, 'कमजोर मांग जुलाई में बरकरार रही, वहीं अगस्त में सुधार के कुछ शुरुआती संकेत दिखे हैं। हालांकि व्यवस्था में ऊंची लागत इन्वेंट्री के साथ वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही कमजोर रह सकती है। कम उत्पादन लागत के साथ साथ त्योहारी सीजन के लाभ तीसरी तिमाही से दिखने की संभावना है।' हालांकि कई श्रेणियों ने उपभोक्ता

धारणा में कमजोरी दर्ज की है और मुद्रास्फोटी आधारित कीमत वृद्धि की वजह से मांग में कमी दर्ज की है, लेकिन कूलिंग प्रोडक्ट कैटेगरी (एसी, एयर कूलर, और रेफ्रिजरेटर) पूरे कंज्यूमर सेगमेंट में सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी।

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज (केआईई) के विश्लेषकों के अनुसार, बड़े घरेलू उपकरणों में, एसी पर सबसे ज्यादा असर पड़ा और इस वजह से जॉनसन के स्वामित्व वाली हिताची और लॉयड (हैवेल्स) को परिचालन मुनाफा स्तर पर नुकसान का सामना करना पड़ा और वोल्टास को 2018-19 की दूसरी तिमाही के बाद से अपने सबसे कम मार्जिन से संतुष्ट होना पड़ा। कई ब्रोकरों का मानना है कि केबल एवं वायर, और लाइटिंग एवं फिक्सचर का प्रदर्शन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में अन्य के मुकाबले बेहतर रहा, क्योंकि कूलिंग उत्पादों और वाशिंग मशीनों को ज्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। कंपनियों ने मार्जिन को लेकर बाजार भागीदारी को प्राथमिकता दी।

कच्चे माल की ऊंची लागत और कमजोर बिक्री की वजह से एफएमसीजी क्षेत्र का सकल एवं परिचालन मुनाफा मार्जिन 400 आधार अंक और 200 आधार बना रहा, जो कोविड-पूर्व स्तरों से नीचे है। सिस्टमेटिक्स रिसर्च का कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियों का मार्जिन कोविड-पूर्व स्तरों से नीचे उभरे रहने की संभावना है, क्योंकि उन्हें उत्पादन लागत में कमी का पूरा लाभ ग्रहण करने में बाधाएं मिली हैं। पहली तिमाही के प्रदर्शन और शानदार परिदृश्य को देखते हुए ब्रोकरेज के

केबल व वायर फर्मों के मार्जिन में होगा इजाफा (तीन साल का सीएजीआर फीसदी में)

कंपनी	राजस्व	परिचालन मार्जिन	मार्जिन (आधार अंक)
बजाज इलेक्ट्रिकल्स	-2	-4.8	-43
ब्लू स्टार	7.7	-27.8	-1,191
क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर	11.4	1.1	-349
फिनोलेक्स केबलस**	39.1	64.8	430
हैवेल्स	16	8.1	-159
हिताची*	2	-135.9	-1,074
आईएफबी	15.2	-22.9	-134
केआईई इंडस्ट्रीज**	13.1	13.9	18
ओरियंट इलेक्ट्रिक	3	-10.1	-206
पॉलिकैब**	12.3	16	88
वी-गार्ड	13	2.3	-237
वोल्टास	1.5	-15.2	-435
वर्ल्डपूल	1.8	-32.1	-969

** केबल व वायर निर्माता। *हिताची एयर कंडिशनिंग इंडिया का नियंत्रण जॉनसन के पास। सीएजीआर : वित्त वर्ष 20 की पहली तिमाही के मुकाबले सालाना चक्रवृद्धि रफ्तार
स्रोत : कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज

पसंदीदा शेयर हैं केआईई इंडस्ट्रीज, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, और फिनोलेक्स केबलस। आईआईएफएल रिसर्च ने एफएमसीजी उत्पादों के संदर्भ में जुलाई-अगस्त की अवधि के लिए -5.5 प्रतिशत की सपाट वृद्धि का अनुमान जताया है, जिससे बिक्री में कमी का संकेत मिलता है। हालांकि रिटेलरों को वित्त वर्ष 2023 में बिक्री में दो अंक की वृद्धि होने का अनुमान है। इस क्षेत्र में आईआईएफएल रिसर्च के पसंदीदा शेयर हैं बजाज इलेक्ट्रिकल्स और पॉलिकैब।

5जी व नई ऊर्जा योजना पर जानकारी देंगे अंबानी


मुंबई : रिलायंस इंडस्ट्रीज की 45वीं सालाना आम बैठक सोमवार को 2 बजे होगी। यह लगातार तीसरी एजीएम होगी जो वर्चुअल हो रही है। कोविड-19 से पहले आरआईएल की एजीएम बिड़ला मातोश्री ऑडिटोरियम मुंबई में हुई थी।
क्या है उम्मीद : 5जी की शुरुआत और नई ऊर्जा नीति को लेकर घोषणा के अलावा खुदरा, दूरसंचार कारोबार को आगे की राह पर जानकारी मिल सकती है। ऑयल टु केमिकल्स का डीमार्ज भी एजेंडे में हो सकता है, साथ ही जियोफोन 5जी का अनावरण भी। किस चीज की नहीं है संभावना : खुदरा व दूरसंचार कारोबार को सूचीबद्ध कराने की समयसारणी, उत्तराधिकार की योजना पर स्पष्टता बाद में आ सकती है।
5जी ही क्यों : रिलायंस जियो हाल में संपन्न 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी में सबसे ज्यादा खर्च करने वाली

कंपनी के तौर पर उभरी है। कंपनी ने नीलामी में बिके करीब आधे स्पेक्ट्रम 88,078 करोड़ रुपये की बोली में खरीद ली।
नई ऊर्जा पर ध्यान : रिलायंस के लिए अगली बड़ी पहल ग्रीन एनर्जी है। पिछले साल अक्षय ऊर्जा पर घोषित 75,000 करोड़ रुपये का खर्च तीन साल में होगा। इसके अलावा आरआईएल जामनगर गुजरात में गंगा कॉम्प्लेक्स बना रही है। दिग्गज कंपनी ने साल 2035 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन की प्रतिबद्धता जताई है। नई ऊर्जा पर क्या कहते हैं अंबानी: अगले 12 महीने में ग्रीन एनर्जी वैल्यू चेन पर हमारा निवेश धीरे-धीरे शुरू होगा और अगले कुछ वर्षों में इसमें इजाफा होगा। बढ़ते नए इंजन में मौजूदा बढ़त के इंजनों को महज 5-7 वर्षों में ही पीछे छोड़ देने की क्षमता है।
विवेट सुजन पिंटो

रिलायंस इंडस्ट्रीज (आंकड़े करोड़ रुपये में)	वित्त वर्ष 21	वित्त वर्ष 22
शुद्ध बिक्री	4,66,924	6,99,962
अन्य आय	38,229	18,099
परिचालन लाभ	1,03,222	1,28,523
कर पूर्व लाभ	55,461	84,142
शुद्ध लाभ	53,739	67,485

टाटा संस के अल्पांश शेयरधारक मांग सकते हैं ज्यादा लाभांश

मुंबई : वित्त वर्ष 2022 में रिर्काई लाभ की घोषणा के बाद असूचीबद्ध टाटा संस के मिस्त्री फैमिली जैसे अल्पांश शेयरधारक टाटा संस प्राइवेट से ज्यादा लाभांश मांगने की योजना बना सकते हैं। 30 अगस्त को जब शेयरधारक लाभांश को मंजूरी देंगे तो उससे मार्च 2022 में समाप्त वर्ष के लिए कुल निकासी 404 करोड़ रुपये की होगी। मिस्त्री फैमिली को कंपनी में अपनी 18.5 फीसदी हिस्सेदारी पर 75 करोड़ रुपये की लाभांश आय अर्जित होगी।
सालाना आम बैठक की अध्यक्षता कार्यकारी चेयरमैन एन चंद्रशेखरन करेंगे और यह बैठक सांख्यिक नहीं होगी।
अतिरिक्त देनदारी : टाटा संस ने असूचीबद्ध सहायक टाटा टेलीसर्विसेज के भारी-भरकम 19,638 करोड़ रुपये के एजीआर बकाए सामने रखे हैं। टाटा संस ने एजीआर के लिए 1,148 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और आने वाले वर्षों में भी प्रावधान किए जा सकते हैं। नुकसान उठाने वाली कंपनी टाटा टेलीसर्विसेज के कर्ज कसाने के लिए टाटा टेली पहले ही 46,595 करोड़ रुपये का निवेश कर चुकी है और नवंबर 2017 में एनटीटी डोकॉमो से 50 फीसदी शेयर 1.2 अरब डॉलर में वापस खरीद लिए। टाटा संस को एयरएशिया इंडिया के 2,600 करोड़ रुपये के संचयी नुकसान के लिए भी प्रावधान करने होंगे।
बढ़ते वेतन : शेयरधारक टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी के निदेशकों के वेतन पर मतदान कर सकते हैं। सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, पीरामल समूह के चेयरमैन अजय पीरामल ने वित्त वर्ष 2021 में 2.25 करोड़ रुपये कमीशन अर्जित किए, वहीं टाइटन के पूर्व प्रमुख भास्कर भट्ट ने भी लाभ पर इतना ही



टाटा संस (एकल आंकड़े करोड़ रुपये में)	वित्त वर्ष 21	वित्त वर्ष 22
राजस्व	9,460	12,573
अन्य आय	10,138	11,560
पीबीआईडीटी	18,231	23,040
पीबीटी	15,618	20,651
शुद्ध लाभ	6,512	17,171

स्रोत : कैपिटालाइन संकलन : बीएस रिसर्च ब्यूरो

कमीशन अर्जित किया। टाटा ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन को टाटा संस से कुछ नहीं मिला क्योंकि वह कंपनी से मुआवजा हासिल करने से परहेज किया। स्वतंत्र निदेशक हरिश मनवानी को लाभ पर 2.6 करोड़ रुपये कमीशन मिले, वहीं गैर-कार्यकारी निदेशक राल्फ स्पेथ को भी कमीशन के तौर पर इतनी ही रकम मिली। कमीशन का भुगतान 30 अगस्त की शेयरधारकों की बैठक के बाद होगा। कंपनी के कार्यकारी चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को वित्त वर्ष 2022 के लिए 109 करोड़ रुपये मिलेंगे।
देव चटर्जी

नए निचले स्तर को परख सकता है रुपया

विश्लेषकों का मानना है कि आगामी दिनों में डॉलर के मुकाबले रुपया 80 के पार जा सकता है

भास्कर दत्ता
मुंबई, 28 अगस्त

आर्थिक रफ्तार में नरमी को देखते हुए अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से मौद्रिक सख्ती घटाने के कयास ने भारतीय रुपये को सहारा दिया था और विदेशी निवेशक देसी परिसंपत्तियों की ओर लौटने लगे थे। हालांकि फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने शुक्रवार को कहा था कि केंद्रीय बैंक महंगाई पर लगातार कसने को प्रतिबद्ध है, ऐसे में उभरते बाजारों की मुद्राएं मसलन भारतीय रुपये पर आगामी दिनों में दबाव दिखेगा क्योंकि डॉलर में मजबूती आएगी।
शुक्रवार को पॉवेल ने कहा था, कीमत स्थिरता की बहाली के लिए

कुछ समय तक प्रतिबंधात्मक नीतिगत रुख बनाए रखने की दरकार पड़ सकती है। ऐतिहासिक रिर्काई हमें नीति में ढील देने के खिलाफ सचेत करते हैं।
कीमत स्थिरता की अहमियत पर पॉवेल के जोर दिए जाने से अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में खासी बढ़ोतरी हो सकती है, जो पहले ही इस साल ऊपर जा चुका है। इसके परिणामस्वरूप अब डॉलर के मुकाबले सर्वकालिक निचले स्तर को परख सकता है, जहां पिछले शान्ति के मुकाबले अपेक्षाकृत उच्चता दिख रही थी। विश्लेषकों ने ये बातें कही।
कोटक सिन्धोरीटीज के उपाध्यक्ष (करेंसी डेरिवेटिव व ब्याज दर डेरिवेटिव) ए बनर्जी ने बिजनेस



स्टैंडर्ड से कहा, मुझे लगता है कि डॉलर के मुकाबले रुपया जल्द ही 80 का स्तर तोड़ सकता है क्योंकि अगर आप पॉवेल के भाषण के अलावा अन्य केंद्रीय बैंकों मसलन ईसीबी के रुख पर नजर डालें तो वे स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि बढ़त

की रफ्तार घटेगी और यूरोप मंदी में जा सकता है, लेकिन उन्हें यह जोखिम उठाना होगा।
उच्च ब्याज दरें और मजबूत डॉलर से मोटे तौर पर वैश्विक फंड दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का रुख कर सकते हैं और उभरते बाजारों की मुद्राओं पर दबाव बढ़ा सकते हैं।
आईएफए ग्लोबल के संस्थापक व सीईओ अभिषेक गोयनका के मुताबिक, पॉवेल के भाषण के बाद बाजार सितंबर में 75 आधार अंकों की बढ़ोतरी की 70 फीसदी संभावना को समाहित कर रहा है और बेंचमार्क अमेरिकी ब्याज दर मार्च 2023 में 3.80 फीसदी पर पहुंच सकता है। फेडरल रिजर्व ने साल 2022 में अब तक ब्याज दरों

में 225 आधार अंकों का इजाफा किया है और बेंचमार्क दर अभी 2.25-2.50 फीसदी पर पहुंच चुका है।
बनर्जी ने कहा कि ऑफशोर मार्केट में डॉलर के मुकाबले रुपया 79.96 पर बंद हो चुका है, ऐसे में देसी मुद्रा को रिर्काई निचले स्तर 80.06 के पार जाने में मामूली धक्के की ही दरकार है। यह स्तर 19 जुलाई को देखा गया था। इस हफ्ते उन्हें डॉलर के मुकाबले रुपया 79.70 से 80.40 के दायरे में जाता दिख रहा है।
एचडीएफसी बैंक के कार्यकारी उपाध्यक्ष (ओवरसीज ट्रेजरी) भास्कर पांडा का भी मानना है कि रुपया जल्द ही डॉलर के मुकाबले नया निचला स्तर बनाएगा।

एचडीएफसी के कवरेज वाले विश्लेषक घटे

एचडीएफसी बैंक संग विलय से पहले हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन (एचडीएफसी) को ट्रेक करने वाले विश्लेषकों की संख्या 39 से घटकर 35 रह गई है। दूसरी ओर, निजी बैंक के विश्लेषक कवरेज की संख्या 48 से 51 हो गई है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों से यह जानकारी मिली। बाजार के प्रतिभागियों

ने कहा कि कुछ ब्रोकरेज विलय से पहले ही अब बैंक की ओर ध्यान केंद्रित कर लिया है जो बाजार कीमत के लिहाज से बड़ी इकाई है।
विलय की शर्तों के मुताबिक, एचडीएफसी के हर शेयरधारकों को 25 शेयरों पर एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर मिलेंगे।
बीएस

Fullerton Grihshakti **फुलरटोन इण्डिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड**
कॉर्पोरेट कार्यालय: पंचवीं तथा छठवीं मंजिल, बी-ब्लॉक, सुप्रीम आईटी पार्क, सुप्रीम सिटी, पोवाई, मुम्बई-400 076
पंजीकृत कार्यालय: मेघ टावर, तीसरी मंजिल, पुराना नं. 307, नया नं. 165, पुनर्मास्ती हाई राईड, मुरारवायल, चेन्नई-600095

अचल सम्पत्ति के लिए कब्जा सूचना [(परीशिष्ट) नियम 8(1)]

चूंकि, फुलरटोन इण्डिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी [निश्चल हाउसिंग बैंक (आरबीआई द्वारा पूर्ण स्वामित्व) के साथ भलीभांति पंजीकृत] (जिसे यहां बाद में "एफआईएफएल" कहा गया है, पंजीकृत कार्यालय मेघ टावर, तीसरी मंजिल, पुराना नं. 307, नया नं. 165, पुनर्मास्ती हाई राईड मुरारवायल, चेन्नई, तमिलनाडु-600095, के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोस्ताक्षरी द्वारा प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संघर्षों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (54 ऑफ 2002) के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रवर्तन शक्तियों के प्रयोग के तहत नीचे उल्लिखित तारीख को मांग सूचना जारी की गई थी, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन आप कर्जदारों (नाम एवं पता नीचे उल्लिखित है) को इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर उक्त सूचना में उल्लिखित रकम के साथ उस पर ब्याज की रकम चुकता करने को कहा गया था। यहां नीचे उल्लिखित कर्जदारों द्वारा संबंधित रकम का भुगतान करने में असफल रहने के कारण एतद्द्वारा यहां नीचे उल्लिखित कर्जदारों एवं जन साधारण को सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अधीन प्रवर्तन शक्तियों के प्रयोग के तहत अधोस्ताक्षरी द्वारा यहां नीचे उल्लिखित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया गया है। विशेष तौर पर यहां नीचे उल्लिखित कर्जदारों तथा आम तौर पर जन साधारण को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा न करें तथा इस संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा यहां नीचे उल्लिखित रकम तथा उस पर ब्याज की रकम के लिए फुलरटोन इण्डिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा।

क्र. सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार का नाम साथ में ऋण खाता सं.	प्रत्याभूत सम्पत्तियों का विवरण (अचल सम्पत्ति)	मांग सूचना की तारीख एवं रकम	कब्जा की तारीख
01	एलएनए: 609107210451296 (1) बोनो शर्मा, पिता राज कुमार (2) शशी शर्मा, पति बोनो शर्मा (3) उषा शर्मा, पता 1: प्लॉट नं. ए11 एसाएफ आरएच 17/3 तथा ग्राम मटियाला कॉलोनी किरण गार्डन, भारत गार्डन, नई दिल्ली, दिल्ली-110078	ग्राम तिहाड़, शिव नगर एक्सटेंशन, नई दिल्ली में स्थित सम्पत्ति सं. डब्ल्यूजेड-382/1, प्लॉट नं. 7 एवं 8, क्षेत्र परिमाण 66.67 वर्ग यार्ड, खसरा नं. 541, 564, 565 एवं 566 में निर्मित सम्पत्ति की तीसरी मंजिल, साथ में उक्त मंजिल पर छत का अधिकार	तारीख: 19.10.2021 रु. 35,37,087.40/- (रुपये पैंतीस लाख सैंतीस हजार अठहत्तर एवं पैसे चालीस मात्र) साथ में दिनांक 12.10.2021 की स्थिति के अनुसार ब्याज	28.08.2022 (भांति कब्जा)

स्थान: दिल्ली
तारीख: 15.06.2022

अधिकृत अधिकारी
फुलरटोन इण्डिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

POST OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF PUBLIC SHAREHOLDERS OF GOLDCREST CORPORATION LIMITED

Corporate Identification Number: L74999MH1983PLC029408.
Registered Office: 3rd Floor, Devidas Mansion, Mareweather Road, Colaba, Apollo Bunder, Mumbai, Maharashtra, 400039, India. Contact details Tel. No. +91-22-22837489 / 22837490.
Email id: office@goldcrestgroup.com; Website: www.goldcrestgroup.com

Company Secretary and Compliance Officer: Marisa Eldin Ferreira

This Post Offer Public Announcement ("Post Offer Public Announcement" or "Post Offer PA") is being issued by Vivro Financial Services Private Limited ("Manager" or "Manager to the Delisting Offer") for and on behalf of one of the promoters of Goldcrest Corporation Limited viz., Nita Tushar Tanna ("Acquirer"), along with Anupa Tanna Shah ("PAC 1"), Namrata Tushar Tanna ("PAC 2"), Hansa Tulidas Tanna ("PAC 3") and Goldcrest Global Trading Private Limited ("formerly known as Goldcrest Securities & Commodities Private Limited") ("PAC 4"), person acting in concert with the Acquirer (collectively "PACs"), to the public shareholders, as defined under Regulation 2(1)(i) of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021, as amended ("Public Shareholders") of Goldcrest Corporation Limited, Corporate Identification Number: L74999MH1983PLC029408 ("Company") in regard to the proposed acquisition of fully paid-up equity shares having face value of ₹10/- (Indian Rupees Ten only) each ("Equity Shares") held by the Public Shareholders, and consequent voluntary delisting of the Equity Shares from the BSE Limited ("BSE"), the only stock exchange where the Equity Shares of the Company are presently listed in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021, as amended ("Delisting Regulations") and in accordance with the terms and conditions set out in (a) Detailed Public Announcement dated August 05, 2022 ("DPA"), which was published on August 08, 2022; and (b) the Letter of Offer dated August 06, 2022 ("LOF"), "Delisting Offer" or "Offer").

This Post Offer PA is in continuation of and should be read in conjunction with the DPA and LOF. Capitalized terms used in this Post Offer PA shall have the same meaning as ascribed to it in the DPA and LOF. The Acquirer and PACs through the Manager to the Delisting Offer issued DPA and LOF to acquire up to 15,44,223 (Fifteen Lakhs Forty-Four Thousand Two Hundred Twenty Three) Equity Shares ("Offer Shares") representing 27.14% of the total issued and paid-up equity share capital of the Company from the Public Shareholders pursuant to Part B of the Chapter III read with Chapter IV of the Delisting Regulations on such terms and condition as set out in DPA and LOF. The Public Shareholders holding Equity Shares of the Company were invited to tender their Equity Shares ("Bids") pursuant to the reverse book-building process ("RBBP") as prescribed in Delisting Regulations through Stock Exchange Mechanism during the bid period starting from Friday, August 19, 2022 to Thursday, August 25, 2022 ("Bid Period").

- DISCOVERED PRICE AND EXIT PRICE**
 - In terms of Regulation 20(1) read with Schedule II of the Delisting Regulations, the Discovered Price is ₹ 200/- (Indian Rupees Two Hundred Only) per Equity Share. The Acquirer and PACs have decided to offer ₹ 200/- (Indian Rupees Two Hundred Only) per Equity Share as the final exit price ("Exit Price") for accepting Equity shares successfully tendered in the Delisting Offer at or below the Exit Price.
- SUCCESS OF THE DELISTING OFFER**
 - In accordance with Regulation 21 (a) of the Delisting Regulation and as stated in the DPA and LOF, the Delisting Offer would be deemed to be successful only if a minimum number of Offer Shares were tendered and acquired in the Delisting Offer at or below the Exit Price so as to cause the cumulative number of Equity Shares held by the Acquirer along with the PACs post acquisition through the Acquisition Window Facility constituting 90% of the paid-up equity shares capital of the Company excluding such Equity Shares in terms of Regulation 21 (a) of the Delisting Regulations.
 - The Acquirer and/or PACs shall acquire 10,02,002 (Ten Lakhs Two Thousand and Two) Equity Shares validly tendered at or below the Exit Price in the RBBP and post completion of acquisition, the shareholding of the Acquirer along with PACs shall be 90.47 % of the total issued and paid-up equity share capital of the Company and which has exceeded the minimum number of Equity Shares required for the Delisting Offer to be successful in terms of Delisting Regulations. The shareholding of the Acquirer along with PACs determined in accordance with the Regulation 21 (a) of the Delisting Regulations is 91.77%.
 - To the best of our knowledge, except for 80,749 equity shares constituting 1.42% of the issued and paid-up equity share capital of the Company transferred to Investors Education and Protection Fund ("IEPF"), there are no inactive shareholders of the Company.
 - The Letter of Offer and Bid Form was despatched to all the Public Shareholders as on specified date i.e. Monday, August 8, 2022 in accordance with Regulation 16 of the Delisting Regulations.
 - The Delisting Offer is thus deemed to be successful.
 - All the Public Shareholders of the Company who have validly tendered their Equity Shares at or below the Exit Price will be paid the consideration at the Exit Price of ₹ 200/- (Indian Rupees Two Hundred Only) per Equity Share. The last date for payment of consideration to all the Public Shareholders (in respect of whom no regulatory approvals are required) and whose Bids have been accepted will be on or before Monday, August 29, 2022. Clearing Corporation will make direct fund pay-out to Public Shareholders whose Equity Shares have been accepted under the Delisting Offer. If bank account details of any Public Shareholders are not available or if the funds transfer instruction is rejected by the Reserve Bank of India / relevant bank(s), due to any reason, then the amount payable to the concerned Public Shareholder will be transferred to the Seller Members for onward transfer to such Public Shareholders.
 - Total 10,06,289 (Ten Lakhs Six Thousand Two Hundred Eighty Nine) Equity Shares with 69 (Sixty Nine) bids were received between the price range of ₹ 192.66 (Indian Rupees One Hundred Ninety Two and Paise Sixty Six) per equity share to ₹ 230/- (Indian Rupees Two Hundred Thirty Only) per equity share (both inclusive) consisting of 10,03,189 (Ten Lakhs Three Thousand One Hundred Eighty Nine) equity shares with 50 (Fifty) bids in demat form and 3,100 (Three Thousand and One Hundred) equity shares with 19 bids in physical form. Total 2,187 (Two Thousand One Hundred and Eighty Seven) equity shares with 4 (Four) bids were received in demat form above Discovered Price and thus same shall not be accepted. Further, bids for 2,100 (Two Thousand One Hundred) Equity Shares received from 12 bidders holding Equity Shares in physical form are rejected by the RTA due to non-matching of signature and/or non-receipt of requisite documents by the RTA in terms of the instructions specified in DPA and/or LOF.
 - The Equity Shares of the Public Shareholders whose Bids have been rejected in the RBBP, their demat shares or the physical shares would be returned to them in accordance with Methods of Settlement contained in the Detailed Public Announcement and Letter of Offer read along with SEBI Circulars. Public Shareholders will have to ensure that they keep their depository participant account active and unblocked to receive credit in case of return of Equity Shares, due to rejection or non acceptance of Equity Shares under the Delisting Offer.
 - The Company will initiate the necessary steps to delist its Equity Shares from BSE. The date of delisting of Equity Shares shall be announced in the same newspaper in which the DPA and this Post Offer PA has been published.
- OUTSTANDING EQUITY SHARES AFTER DELISTING OFFER**
 - In accordance with Regulation 26 of the Delisting Regulations, all Public Shareholders who continue to hold Equity Shares after the Delisting Offer ("Residual Shareholders") will be able to offer their Equity Shares to the Acquirer/PACs at the Exit Price for a period of one year following the date of the delisting of Equity Shares from the Stock Exchange viz. BSE Limited ("Exit Window").
 - The Acquirer/PACs shall ensure that the rights of the Residual Shareholders are protected and shall be responsible for compliance with Regulation 27 of the Delisting Regulations and Stock Exchange shall monitor the compliance of the same.
 - If any Public Shareholders has any queries regarding the Delisting Offer, he/she should consult the Manager to the Delisting Offer or the Registrar to the Delisting Offer. All terms and conditions of the Delisting Offer as set forth in the DPA and LOF remain unchanged. The Post Offer PA is also expected to be available on the website of the Stock Exchange (www.bseindia.com).
 - The Acquirer/PACs accepts full responsibility for the information contained in this Post Offer PA and confirm that such information is true, fair and adequate in all material aspects.

ISSUED BY MANAGER TO THE DELISTING OFFER

Sd/- Acquirer	Sd/- PAC 1	Sd/- PAC 2	Sd/- PAC 3
Nita Tushar Tanna	Anupa Tanna Shah	Namrata Tushar Tanna	Hansa Tulidas Tanna
For and on behalf of the Goldcrest Global Trading Private Limited (PAC 4)			
Sd/- Nita Tushar Tanna (DIN: 00170591)	Sd/- Anupa Tanna Shah (DIN: 01587901)		

Date: August 26, 2022 Place: Mumbai

